

SANGAM (INDIA) LIMITED

CIN: L17118 RJ 1984 PLC 003173

Regd. Off.: P.B. No. 90, Atun, Chittorgarh Road, Bhilwara - 311001 (Raj.) INDIA

Phone: +91-1482-305000, 305028, Fax: +91-1482-305050

E-mail: secretarial@sangamgroup.com, Website: www.sangamgroup.com

Ref: SIL/SEC/2019

Date: 9th September, 2019

The Manager

Department of Corporate Services

The National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor,

Plot No. C/1, G Block

Bandra Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400051

Scrip Code: 5251

The Manager,

Department of Corporate Services,

Bombay Stock Exchange Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street,

MUMBAI - 400 001

Scrip Code: 514234

Sub: Submission of copy of Notice published in the Newspapers.

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copy of Notice published in Business Standard (English) and in Business Remedies (Hindi) on 7th September, 2019.

Hope you will find the same in order and take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully

For Sangam (India) Limited

A.K. Jain

Company Secretary

FCS - 7842





SANGAM (INDIA) LIMITED

CIN-L17118RJ1984PLC003173

Regd.Off: Atun, Chittorgarh Road, Bhilwara-311001 (Raj.) Ph:+91 1482 245428 Email: secretarial@sangamgroup.com Website: www.sangamgroup.com

NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Monday, 30th September, 2019 at 4.00 p.m. at Atun, Chittorgarh Road, Bhilwara 311001 (Raj.) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made there under and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, the 23rd September, 2019 to Monday, the 30th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and determination of payment of dividend, if approved at the said AGM

It is informed that the Notice of AGM and Annual Report for F.Y. 2018-19 has been sent through electronic mode to the members whose email IDs are registered with Company or Depository Participant(s) and physical copies of Annual Report to those members who have not registered their email address. The copy of Notice and Annual Report is also available on the Company's website www.sangamgroup.com

Pursuant to the Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Act read with relevant rules of the Act, the Company is pleased to provide to its members the facility to exercise their right to vote by electronic means through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at https://www.evotingindia.comMembers of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date being 20th September, 2019, may cast their vote electronically or at AGM through Ballot paper. The e-voting instructions form an integral part of the Notice. The e-voting window will open at 9.00 a.m. IST on Wednesday, 25th September, 2019 and close at 05.00 p.m. IST on Saturday, 28th September, 2019. The e-voting module will be disabled by CDSL for e-voting. Any person who acquires share after despatch of notice but holding shares on the cut-off date than he can acquire login ID and password by requesting to the Company Secretary of the Company, Any query/grievance connected with voting by electronic means should be addressed to the Company Secretary at secretarial@sangamgroup.com or at Phone No. +91-1482-245428

The Members who have cast their votes through remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again. The Members who have not casttheir votes through remote e-voting will be able to vote at the meeting. The facility for voting shall be made available at the AGM by means of Ballot.

CS Brij Kishore Sharma, Practicing Company Secretary (Membership No. 6206, COP No. 12636) has been appointed as Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparen manner. By order of the board

For Sangam (India) Limited Place: Bhilwara A.K. Jain Date: 06.09.2019 (Company Secretary)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that our client has come across a Public Notice issued by United Bank of India dated 29th August 2019 by which they were in process of taking possession of the immovable property described therein and were they have mentioned our clients name as the existing partner of firm known as Malamohan **Beverages.** In response to the said Public Notice our clients have instructed us to issue a Public Notice and to intimate the public at large that Amit Mohanlal Agarwal. Hemal Lopesh Vora, Bhavesh Kantilal Jhaveri & Sanjay Mahendraprasad Singh were the original partners of partnership firm known as Malamohan Beverages and werein business of manufacturing of packaged drinking water, natural mineral water in all type of packaging such as bottles, glasses and jars and the firm was incorporated on 17th February 2017.

By an under Deed of Retirement and Admission dated 28th September 2018 Amit Mohanial Agarwal, Bhavesh Kantilal Jhaveri and Saniav Mahendraprasad Singh have retired from the said Firm w.e.f. 28th September 2018 and their shares were taken over by Rahul Shankar Gaikwad and Asmita Rahul Gaikwad as Incoming Partners and Hemal Lopesh Vora she continued as Continuing Partner. The said retirement from the partnership firm of Malamohan Beverages was given effect from 28th September 2018. The incoming partners i.e. Rahul Shankar Gaikwad and Asmita Rahul Gaikwad have specifically agreed and undertaken that they themselves shall pay the debts of the said firm alongwith the continuing partner i.e. Hemal Lopesh Vora in respect of firm.

By the present public notice our clients are informing to public at large that they have retired from the said firm w.e.f. 28th September 2018 and public at large is hereby intimate that neither of the parties shall now deal with the partnership firm under the impression that our clients are the partners and if any person doing so he/she/they shall be doing at his/her/their own risk and peril.

Dated this 7th day of September, 2019

Proprietor Prime Leaem Advocate - High Court Gorai Sangli Co-operative Housing Society Limited F-4, Plot No. 37, RSC-19, Gorai-II Borivali (West). Mumbai - 400 092



Sicagen India Limited

Regd. Office: 4th Floor, SPIC House, No.88, Mount Road, Guindy, Chennai-600032 (CIN: L74900TN2004PLC053467)

NOTICE TO SHAREHOLDERS

(For Transfer of unpaid/unclaimed Dividend & equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account)

Sub: (1) Reminder to claim the Dividends remaining unpaid/claimed.

(2) Transfer of unclaimed Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India.

As per Section 124(5) of the Act all dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years are required to be transferred by the Company to the 'Investor Education and Protection Fund' (IEPF).

Unpaid or unclaimed Dividends pertaining to the Financial Year 2011-12, will be credited to the IEPF Authority on or before 6th October,2019 and the corresponding shares on which dividend was unclaimed or unpaid for seven consecutive years will also be transferred to IEPF as per the procedures set out in the Rules.

The Company will not transfer such shares to the IEPF Authority where there is a specific order of Court/Tribunal restraining any transfers or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996.

Concerned Shareholders holding shares in physical mode and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing duplicate Share Certificate (s) in lieu of original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority and upon such issue, the Company shall inform the Depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate into Demat form and transfer in favour of IEPF Authority. The original Share Certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed nonnegotiable. Concerned Shareholders holding shares in dematerialized form may note that mode the Company shall inform the Depository by way of corporate action for transfer of shares to IEPF Authority.

The full details of unpaid/unclaimed dividends of the Company are placed on its website https://sicagen.com/ and that of the Ministry of Corporate Affairs as

PRIME FOCUS LIMITED

Registered Office: Prime Focus House, Linking Road, Opp. Citi Bank, Khar (West), Mumbai - 400 052 • Phone: 022 - 6715 5000 • Fax: 022 - 6715 5001 Website: www.primefocus.com
 Email: ir.india@primefocus.com

BUSINESS न्यूज ब्रीफ

राष्ट्रपति ने भीलवाड़ा की डॉ. कल्पना शर्मा का किया सम्मान



बिजनेस रेमेडीज/भीलवाड़ा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय, बनेडा की प्रिंसीपल डॉ. कल्पना शर्मा को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार के तहत डॉ. शर्मा को मेरिट सर्टिफिकिट, 50 हजार रुपये नकद तथा सिल्वर मेडल प्रदान किये गये। डॉ. शर्मा को यह पुरस्कार राज्य स्तरीय विज्ञान एवं जनसंख्या व विकास शिक्षा मेला, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम, पल्स पोलियो राष्ट्रीय कार्यक्रम, साक्षरता, पौधारोपण, रिसर्च वर्क, नामांकन वृद्धि, शैक्षिक नवाचार, भामाशाह सहयोग आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने पर प्रदान

जिला कलैक्टर ने दिये मोर्हरम पर विशेष व्यवस्थाओं के निर्देश

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। मोर्हरम की तैयारियों एवं कानून व्यवस्था के संबंध में जिला कलैक्टर जगरूप सिंह यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक आयोजित हुई। कलैक्टर ने कहा कि मोर्हरम का त्यौहार आपसी भाईचारे और समन्वय से मनाये। उन्होंने कहा कि सभी लोग आपसी सहयोग की भावना से त्यौहार मनाये और आपस में मनमुटाव न रखे। उन्होंने कहा कि कोई घटना होती है तो उसकी सूचना पहले शांति समिति को देवे, ताकि वे उस पर अमल कर सके। मोबाइल पर विभिन्न माध्यमों से आने वाली अफवाहों पर ध्यान न दे। तकनीक के जरिये जो दुरूपयोग हो रहा है उसको रोकना है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लाम्बा ने कहा कि सोशल मीडिया पर आने वाली अफवाह पर ध्यान न दे एवं पुलिस को तुरंत सूचित करे। वहीं डीजे लाउडस्पीकर तेज अवाज में नहीं चलाने के आदेश दिये। साथ ही लाइसेंस के मुताबिक ही ताजियों की ऊचाई का निर्धारण करे और इसका उल्लघंन करने वालों पर कानूनी कार्यवही की जायेगी। उन्होंने नगर निगम को साफ सफाई, फायर ब्रिगेड वाहन निश्चित स्थान पर लगाने के निर्देश दिये।

उर्मिला राजोरिया ने आएसडीसी के एमडी का पदभार संभाला



जयपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी उर्मिला राजोरिया ने राजस्थान हाथकर्घा विकास निगम के प्रबंध संचालक का कार्यभार संभाल लिया। उल्लेखनीय है कि उर्मिला राजोरिया को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर आरएसडीसी के एमडी का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। एमडी आरएसडीसी उर्मिला राजोरिया ने प्रबंध संचालक का

कार्यभार संभालने के बाद निगम के चैमू हाउस स्थित कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक ली और बताया कि इस माह के अंत तक हस्तशिल्पियों, बुनकरों व दस्तकारों की कार्यशाला के आयोजित की

आवश्यकता

बिजनेस रेमेडीज दैनिक समाचार पत्र को कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली में खबरों एवं विज्ञापन कार्य हेतु प्रतिनिधि की आवश्यकता है।

सम्पर्क करें

63/118, हीरा पथ, मानसरोवर, जवपुर -302020 0141-2785686 9929106227 E-Mail: remediesbusiness@gmail.com

businessremedies@yahoo.com

त्यक्तित्व

महकता हुआ जीवन असापास की मनोभूमि में प्रीत के अंकुर पल्लवित करने का पराक्रम करता है और चारों ओर महकती हुई फुलवारी आंगन को अहोभाव से भर देती है, वहीं कोई उदण्ड अच्श्रुखल बनकर उभरने लगता है, तब उस उदण्डता को झेलता हुआ परिवार जख्मी होने लगता है। आत्मीयता तार-तार हो उठती है। रेशम सा मुलायम दिल भीतर ही भीतर आंसू पीने को मजबूर हो जाता है। बड़े बुजुर्ग वात्सल्य के साये में उसकी हार्दिक उदण्डता, घृणा, द्वेष, नफरत, कदुता के कांटों को निकालने में जी जान से जुट जाते हैं फिर भी जिंदगी की सादगी, स्वभाव की ताजगी आ नहीं सकती। उपकारियों का सारा प्रयास भैंस के आगे बीन बजाने जैसे ठहरता है। उसका वो रौद्र रूप ख्रुशनुमा परिवार और महकते माहौल में बारूद का रोल अदा कर देता है। अरमानों की राख में अपनत्व की तलाश अधूरी ही रह जाती है क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आती है- मैं ओरों को खुशियों के फूल बांदू न कि गम के कांटे। यदि हां, तो शख्सियत बनेंगे जिसकी चाहत हजारों लाखों को

चिंतनशीला वसुमित जी मा.सा.

उद्यमों के बीच आपसी विवादों को लोक अदालत की तरह निपटाया जा सकेगा: उद्योग मंत्री

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि राज्य व जिला स्तर पर विकसित विवाद व शिकायत निवारण तंत्र को अधिकार संपन्न बनाया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के आदेश जारी होते हुए यह तंत्र सक्रिय हो गया है और 18 जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा जिला कलैक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयोजित कर डीआरएम को गतिशील बना दिया है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक शेष सभी जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा इस समिति की बैठक आयोजित कर ली जाएगी।

उद्योग मंत्री मीणा ने बताया कि जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति में राज्य की विद्यमान एवं नई स्थापित होने वाली सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद स्तर की मैन्यूफेक्चरिंग एवं



सेवा इकाईयों के संचालन एवं निवेश में आने वाली कठिनाइयों के त्वरित निस्तारण के लिए विवाद एवं शिकायत निवारण (डिस्पुट रिड्रेसल मैकेनिज्म) विकसित किया गया है। मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय समिति में जिले में नए निवेश या विद्यमान उद्यमों से

कार्यालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर निस्तारण करने और असामान्य रुप से लंबित होने की स्थिति में संबंधित विभाग की पत्रावली का अवलोकन कर सुसंगत अभिशंषा का अधिकार भी दिया गया है। इसके साथ ही उद्यम की स्थापना व संचालन में व्यवधान करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध सक्षम स्तर पर

कराने का भी अधिकार है। उद्यमों के बीच आवसी विवादों को भी लोक अदालत की तरह निपटाया जा सकेगा। इसी तरह से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति जिला स्तर पर विलंबित प्रकरणों की समीक्षा के साथ ही जिला स्तरीय समिति के निर्णयों की अपीलीय प्राधिकरण के रुप में सुनवाई कर निर्णय कर सकती है। निवेश व उद्यम संचालन में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के साथ ही सरलीकरण और नवाचारों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी किया जा सकेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य व जिला स्तरीय समितियों में सभी संबंधित विभागों, बैकर्स समिति और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों की सहभागिता होने से डीआरएम सिस्टम

होगा। उन्होंने बताया कि सभी जिला उद्योग केन्द्रों को निर्देषित किया गया है कि जिला कलैक्टर की अध्यक्षता में समिति की बैठक आवश्यक रुप से 15 सितंबर तक आयोजित कर लें, ताकि इस माह के अंत तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जा सके। आयुक्त उद्योग डॉ. पाठक ने बताया कि डीआरएम की खास बात यह है कि कोई भी उद्यमी अपनी शिकायत या परिवाद पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन व ऑफलाईन दाखिल कर सकता है। उन्होंने बताया कि डीआरएम को संभागीय स्तर पर उद्यमियों और प्रशासन के बीच समंवय का माध्यम बनाने से जिले के औद्योगिक विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका तय हो

पर्यटन मंत्री ने जयपुर बाय नाईट के पोस्टर का विमोचन किया

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। राजस्थान सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने दो दिवसीय जयपुर बाय नाईट के 7 वें संस्करण का पोस्टर रिलीज किया। 27 व 28 सितम्बर को आयोजित जा रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम सीआईआई, यंग इंडियन्स तथा राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।

इस पहल को राजस्थान खादी व ग्रामीण उघोग बोर्ड, रूडा तथा इंडियन वूमन नेटवर्क का भी समर्थन प्राप्त है। सीआईआई राजस्थान के डायरेक्टर व स्टेट हैड नितीन गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पिंकसिटी के ट्यरिज्म, क्राफ्ट और शॉपिंग एक्टीविटीज को बढावा देना है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान सरकार के माननीय ऊर्जा, जल व कला व संस्कृति प्रभाग के मंत्री बी.डी कल्ली ने भी इस पोस्टर को

ई-ऑक्शन के लिये रजिस्ट्रेशन और हैल्पलाइन 20 सितम्बर से शुरू होगी

जयपुर। राजस्थान आवासन मण्डल में 30 सितम्बर से होने जा रहे मकानों एवं फ्लैट्स के ई-ऑक्शन के लिये इच्छुक आवेदकों का रजिस्ट्रेशन आगामी 20 सितम्बर से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन एवं ई-ऑक्शन प्रक्रिया के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिये हैल्पलाइन भी इसी दिन शुरू की

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने शुक्रवार को मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर ई-वेबसाइट रजिस्ट्रेशन, नीलामी प्रक्रिया एवं नियम व शर्तों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा की अनुपालना में मण्डल ने ई-ऑक्शन की पहल की है। मण्डल स्तर पर इस प्रक्रिया को सफलतापर्वक संचालित कर आधक स आधक आवास सफल बोलीदाताओं को बेचने के लिये व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं।

अरोड़ा ने कहा कि 42 शहरों की 50 योजनाओं में स्थित 9 हजार 605 आवासों की बिक्री के लिये मण्डल के वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों में कैम्प लगवाये जा रहे हैं, ताकि आमजन को अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी चिन्हित करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। वेबसाइट पर भी उपलब्ध मकानों एवं फ्लैट्स के नम्बर, आकार, बिल्डिंग प्लान, ले-आउट, फोटोज सहित अन्य जानकारी योजनावार उपलब्ध कराई जा रही है। उप आवासन आयुक्त कार्यालयों में बैंकों से सम्पर्क कर काउन्टर लगवाये जा रहे हैं ताकि आवेदकों को ऋण लेने के लिये चक्कर नहीं लगाने पड़े। आवासन आयुक्त ने बताया कि ई-ऑक्शन में सम्मिलित सभी योजनाओं के लिये योजनावार नोडल अधिकारी लगाये गये हैं जिनके मोबाईल नम्बर आवासन मण्डल का वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं। इनसे सम्पर्क कर इच्छुक

मौके पर जाकर देख भी सकेंगे। उन्होंने कहा कि ई-ऑक्शन को लेकर आमजन में उत्सुकता का माहौल बना है, जिसे देखते हुए इस अभियान की सफलता सुनिश्चित नजर आ रही है।

अरोड़ा ने बताया कि ऋगात्मक छूट पर आधारित ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिये आवश्यक जानकारी भरकर एवं 590 रुपये का नॉन-रिफण्डेबल शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिये पसंदीदा आवास की आरक्षित दर की 5 फीसदी राशि बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी। ई-ऑक्शन बंद होने के बाद सफल बोलीदाताओं को 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिये 72 घण्टे का समय दिया जायेगा। यह राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता हाथों-हाथ मांग पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। शेष राशि जमा करने के लिये 60 दिन का समय दिया जायेगा। पुरी राशि और जरूरी दस्तावेज जमा होने के बाद प्रॉपर्टी का कब्जा बोलीदाता को दे दिया जायेगा।

वाडब्रेंट जेवियरस के पांचवें संस्करण का आज होगा भव्य आयोजन

बिजनेस रेमेडीज/ **जयपुर।** सी-स्कीम स्थित संत जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में शनिवार 7 सिंतबर 2019 को कैरियर काउंसिलिंग सेमिनार वाइब्रेंट जेवियरस का आयोजन होगा। जिसमें विभिन सत्रों में अलग-अलग विषयों में महारत रखने वाले विशेषज्ञ अपने अनुभवों को छात्र -छात्राओं के साथ साझा करेंगे। वाइब्रेंट जेवियरस के कोऑर्डिनेटर विनीत बंसल ने बताया कि जयपुर शहर के 10 स्कूल के करीब 350 स्टूडेंट्स इसमे भाग लेंगे । इस सेमिनार का ये पांचवा सोपान हैं जिसमे इस वर्ष गोयनका इंस्टिट्यूट ऑफ कॅरियर काउंसलिंग के सीईओ रवि गोयनका, ग्लोबल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सीईओ नमन कंदोई, क्लैट प्रेप से अभिषेक चतुर्वेदी और डिजाइन से इंग्लैंड की डिजाइनर लिजा का व्यख्यान

A.K. SPINTEX LIMITED

CIN: L17117RJ1994PLC008916, Contact: 01482-249002/3/4, 9887049006, 9929139002 Regd. Office: 14 K.M. Stone, Chittor Road, Biliya Kalan, Bhilwara-311001

Email: akspintex@gmail.com . Website: www.akspintex.com NOTICE OF AGM AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be neld on Monday 30th September, 2019 at the Registered office of the Company at 14 K.M.

Electronic copies of the notice of the AGM and Annual Report for the year 2018-19 have ent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same is also available on the Company's website www.akspintex.com Physical copies of the same have also been sent to all other members at their registered addres

Members holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the cut-off date of ember 23, 2019 may cast their vote electronically on the resolutions as set out in the notice of AGM through remote-electronic voting system on Central Depository Service Limited (CDSL rom a place other than venue of AGM ("Remote E-voting). All the members are informed that:

nce on 27th Sept., 2019 at 10:00 A.M. [IST] and shall end on 29th Sept., 2018 at 4:00 P.M. [IST]

- A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch o the notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining th login-id and password by sending an e-mail to akspintex@gmail.com or helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning their Folio No.IDP ID and client ID No However, if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-vot existing user-id and password can be used for casting your vote. al The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time
 - for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall
- b) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM c] The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also
- ttend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficia
- owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper. II. For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section
- "NOTES" in notice of the AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the FAQs for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.comor may contact:

| | | For A.K. SPINTEX LIMITED |
|-------------------|--|---|
| -mail id | Helpdesk.evoting@cdslindia.com | akspintex@gmail.com |
| el. | 022-22723333 | 01482-249002 |
| ame & Designation | Bhawendra Jha, Dy. Manager | Ashish Kumar Bagrecha CS & Compliance Officer |
| ddress | 17th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Form Mumbai 400001 | 14 K.M. Stone, Chittor Road, Biliya Kalan, Bhilwara-311001 (Raj.) |
| articulars | Central Depository Services (India) Ltd. | A.K. SPINTEX LIMITED |

Date: 06th Sept, 2019 Company Secretary & Compliance Officer

जयपुर-दिल्ली वोल्वो का सफर २०० रुपए हुआ सस्ता, अग्रिम आरक्षण पर भी मिलेगी छूट



जयपुर

घाटे में चल रही रोडवेज ने यात्री भार बढ़ाने के लिए फ्लैक्सी फेयर योजना की शुरूआत की है। इसमें जयपुर से दिल्ली सुपर लग्जरी का किराया घटाकर 700 रुपए कर दिया है। यह किराया सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, बुधवार और गुरूवार को ही लागू होगा। यानी शुक्र, शनि, रवि और सोमवार को 900 रुपए ही लगेंगे। यह प्रयोग पहले तीन महीनों के लिए शुरू किया गया है।

कार्यकारी प्रबंधक जनसंपर्क सुधीर भाटी ने बताया कि समूह में

यात्रा करने, मासिक पास बनवाने और अग्रिम आरक्षण कराने पर भी यात्रियों को किराए में छूट दी जाएगी। ये तीन तरह के आदेश रोडवेज की सभी बसों में लागु होंगे। रोडवेज ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। 11 सितंबर से ये योजना के तहत किराए में छूट लागू

गत दो महीने से रोडवेज में जयपुर-दिल्ली के बीच किराया कम करने की कवायद चल रही थी। इसका निर्णय बोर्ड बैठक में भी लिया गया था। डिलेक्स डिपो और दिल्ली रूट के लगातार घाटे में जाने से रोडवेज को नुकसान हो रहा था।

पिछले एक साल में डिलेक्स डिपो सबसे नीचे पायदान पर आ गई। बस में यात्रा करने के लिए तीन

से 15 दिन पूर्व आरक्षण कराने पर 10 प्रतिशत की किराए में छूट मिलेगी। वहीं 16 से 30 दिन पहले टिकट बुक करने पर 20 प्रतिशत यात्री किराए में रियायत दी जाएगी।

रोडवेज की बसों में एक, दो और तीन माह के लिए मासिक पास बनाने वाले यात्रियों को वर्तमान में तीन दिवस के लिए 50 प्रतिशत छूट दी जा रही थी। अब 60 प्रतिशत छूट यानी एक माह में 12 दिवस के यात्री किराए पर मासिक यात्रा पास दिए जाएंगे।

SANGAM (INDIA) LIMITED CIN-L17118RJ1984PLC003173

Regd. Off.: Atun, Chittorgarh Road, Bhilwara-311001 (Raj.)

Ph:+91 1482 245428 Email- secretarial@sangamgroup.com Website- www.sangamgroup.com

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of

members of the Company will be held on Monday, 30th September, 2019 at 4.00 p.m. at Atun, Chittorgarh Road, Bhilwara-311001 (Raj.) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM

NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made there under and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, the 23^{rd} September, 2019 to Monday, the 30th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and determination of payment of dividend, if approved at the said AGM.

It is informed that the Notice of AGM and Annual Report for F.Y. 2018-19 has been sent through electronic mode to the members whose email IDs are registered with Company or Depository Participant(s) and physical copies of Annual Report to those members who have not registered their email address. The copy of Notice and Annual Report is also available on the Company's website www.sangamgroup.com

Pursuant to the Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Act read with relevant rules of the Act, the Company is pleased to provide to its members the facility to exercise their right to vote by electronic means through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at https://www.evotingindia.com Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date being 20th September, 2019, may cast their vote electronically or at AGM through Ballot paper. The e-voting instructions form an integral part of the Notice. The e-voting window will open at 9.00 a.m. IST on Wednesday, 25th September, 2019 and close at 05.00 p.m. IST on Saturday, 28th September, 2019. The evoting module will be disabled by CDSL for e-voting. Any person who acquires share after despatch of notice but holding shares on the cut-off date than he can acquire login ID and password by requesting to the Company Secretary of the Company. Any query/grievance connected with voting by electronic means should be addressed to the Company Secretary at secretarial@sangamgroup.com or at Phone No. +91-1482-

The Members who have cast their votes through remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again. The Members who have not cast their votes through remote e-voting will be able to vote at the meeting. The facility for voting shall be made available at the AGM by means of Ballot.

CS Brij Kishore Sharma, Practicing Company Secretary (Membership No. 6206, COP No.12636) has been appointed as Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner.

By order of the board For Sangam (India) Limited Sd/-(A. K. Jain) **Company Secretary**

Place: Bhilwara Date: 06.09.2019